

1	2	3	
4	Goa	1	4
5	Gujarat	5	7
	i. Haryana	9	11
7, .	J & K	1	—
8.	Karnataka	2	4
9	Kerala	11	13
10	Madhya Pradesh	5	4
11	Maharashtra	6	17
12	Manipur	11	17
13	Mizoram	5	5
14	Mcghalaya	—	3
15	Nagaland	3	3
16	Orissa	6	10
17	Punjab	6	7
18	Rajasthan	6	10
19	Tamil Nadu	8	26
20	Sikkim	—	2
21	Tripura	—	2
22	Uttar Pradesh	12	41
		9	14
23	West Bengal		
1.	Chandigarh	1	1
2.	Delhi	9	8
3.	Pondicherry	—	1
		130	233
	TOTAL		

#### Amendment to the Maternity Benefits Act, 1973

2792. SHRI KANAKSINH MOHAN SINGH MANGROLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Maternity Benefits Act, 1973 disallowing maternity leave to women, working in Super Bazar and other consumer cooperative sectors and establishments who have more than two children; and

(b) if so, whether Government have been aware of reaction of the women

organisations and particularly of women below poverty line?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Central Legislation on maternity benefit is titled as "The Maternity Benefit Act, 1961." There is no proposal to amend this Act so as to impose any periodical restriction on grant of maternity benefit to the women employees covered under the Act.

(b) Does not arise.

**राज्य व्यापार निगम द्वारा मिट्टी के तेल का आयात**

2793. श्री जनार्दन यादव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्तकों के लिए मिट्टी के तेल के मूल्य को कम करने के उद्देश्य से, राज्य व्यापार निगम को मिट्टी के तेल का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने अपने पास उपलब्ध तेल भंडारण टैंकों और पाइपलाइनों जैसी विभिन्न सुविधाओं का राज्य व्यापार निगम के साथ मिलकर उपयोग करने से संबंधित राज्य व्यापार निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोलो बुल्ली रामैया): (क) और (ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस०टी०सी०) को सरकार की समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत सुपीरियर कैरोसीन आयल (एस०के०ओ०) के आयात के लिए सरकार से किसी विशेष स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति द्वारा बिना किसी आयात लाइसेंस के एस०के०ओ० के आयात की अनुमति है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1994 में एस०टी०सी० ने आयातित एस०के०ओ० के भण्डारण के लिए आई० ओ०सी० की भण्डारण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन के पास प्रस्ताव रखा। तथापि, आई०ओ०सी० ने इस आधार पर अपनी असमर्थता व्यक्त की कि एस०टी०सी० को देने के लिए उसके पास बम्बई और कांडला में फास्तु भण्डारण

सुविधा नहीं है। एस०टी०स्त्री०, एस०के०ओ० के भण्डारण और वितरण के लिए मुख्य बंदरगाहों पर उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहा है, बशर्ते कि उक्त प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।

**व्यापार में उदारीकरण की सुविधाओं का दुरुपयोग**

2794. श्री ओ०पी० कनेइल्ली: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में व्यापार में उदारीकरण सुविधाओं के दुरुपयोग संबंधी अनेक मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी नीतियों राष्ट्रीय हित से अधिक आयातकों एवं निर्यातकों के एक वर्ग के हितों का पोषण करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन नीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्लु सुल्ली रमैया): (क) से (ग) कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों का संबंध बढ़ाकर बीजक देने और मूल्य की गलत घोषणा तथा निर्यातकों के प्रमाणिक होने के बारे में है। स्वर्ण/चांदी के आभूषणों वाले स्रमानों में की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति योजना के उल्लंघन के कुछ मामलों की रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, उल्लंघन और दुरुपयोग के ये मामले ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मामलों की कुल संख्या की तुलना में छोटी संख्या में हैं।

दुरुपयोग का उल्लंघन की ऐसी शिकायतें मिलने पर इनकी तुरंत जांच की जाती है और उसके पूरा होने पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है जहाँ जांच से ऐसी कार्रवाई न्यायसंगत सिद्ध हो जाती है। ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई में लाइसेंस, आई ई कोड का निलम्बन, अर्ब डण्ड लगाया जाना इत्यादि शामिल है। निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करने के मामले

में उपयुक्त मूल्य के विशेष आयात लाइसेंस वापस करने के अतिरिक्त अप्रयुक्त अवधिगत स्रमान पर ब्याज सहित सीमा शुल्क वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) निर्यात और आयात नीति के प्रबन्धन पार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए लागू किए जाते हैं और निर्यातों को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा लगातार प्रत्येक और एक्जिम नीति के उचित रूप से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 से 21% के बीच वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करना संभव होता रहा है।

### Mishap in coal Mine

2795. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there was a coal mine mishap recently in Dhanbad;

(b) if so, the details thereof with number of casualties;

(c) whether any comprehensive enquiry was conducted in the matter; and

(d) if so, the findings and the action taken on the report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Due to unprecedented heavy rains of the order of over 300 mm on the night of 26/27.9.1995, the water level of Katri River in Dhanbad district overflowed the three embankments constructed for flood protection of Gaslitand underground mine of Bharat Coking Coal Limited (BCCL) resulting in the trapping of 64 workers inside the mine. A number of other mines of BCCL were also flooded claiming 77 lives including 64 of those trapped inside the Gaslitand mine.

(c) and (d) Under Section 24 of the Mines Act, 1952, the Government had constituted a Court of Inquiry headed by Justice (retd.) S.K. Mukherjee of Patna High Court to inquire into the causes and circumstances attending the accident which occurred at Gaslitand and other mines of BCCL on 26/27.9.1995. The Court of Inquiry is yet to submit its report.